



NEERAJ®

जीव विज्ञान

(Biology)

N-314

**Chapter wise Reference Book
Including MCQ's
& Many Solved Sample Papers**

Based on

N.I.O.S. Class – XII

National Institute of Open Schooling

By :
Prieti Gupta M.Sc.



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com

Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 380/-

CONTENTS

जीव विज्ञान (Biology)

Based on: NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING – XII

<i>S.No.</i>	<i>Chapters</i>	<i>Page</i>
Solved Sample Paper - 1	1–8	
Solved Sample Paper - 2	1–5	
Solved Sample Paper - 3	1–5	
Solved Sample Paper - 4	1–4	
Solved Sample Paper - 5	1–4	
<i>S.No.</i>	<i>Chapter</i>	<i>Page</i>
<u>मॉड्यूल-I: विविधता तथा जीवन का विकास (Diversity and Evolution of Life)</u>		
1. जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय (Origin and Evolution of Life and Introduction to Classification)		1
2. जगत मोनेरा, प्रोटोक्रिटस्टा व फंजाई (The Kingdom Monera, Protocista and Fungi)		9
3. पादप जगत (प्लांटी) और प्राणी जगत (ऐनिमेलिया) (Kingdoms Plantae and Animalia)		15
4. कोशिका – संरचना एवं कार्य (Cell: Structure and Functions)		23
5. ऊतक तथा संघटना के अन्य स्तर (Tissues and Other Levels of Organisation)		35
<u>मॉड्यूल-II: पादप तथा जीवों के प्रकार एवं प्रकार्य (Forms and Functions of Plants and Animals)</u>		
6. मूल तंत्र (Root System)		43
7. प्ररोह तंत्र (Shoot System)		49

<i>S.No.</i>	<i>Chapter</i>	<i>Page</i>
8.	पौधों में अवशोषण, परिवहन और जल क्षय (वाष्पोत्सर्जन) (Absorption, Transport and Water Loss in Plants)	61
9.	पादपों में पोषण—खनिज पोषण (Nutrition in Plants – Mineral Nutrition)	66
10.	नाइट्रोजन उपापचय (Nitrogen Metabolism)	70
11.	प्रकाश-संश्लेषण (Photosynthesis)	75
12.	पादपों में श्वसन (Respiration in Plants)	81
13.	पोषण और पाचन (Nutrition and Digestion)	87
14.	श्वसन और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन (Respiration and Elimination of Nitrogenous Wastes)	93
15.	देह-तरल पदार्थों का परिसंचरण (Circulation of Body Fluids)	101
16.	संचलन एवं गति (Locomotion and Movement)	105
17.	समन्वय और नियंत्रण : तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र (Coordination and Control: The Nervous and Endocrine Systems)	109
18.	समस्थापन : स्थायी अवस्था (Homeostasis: The Steady State)	116
मॉड्यूल-III: जनन एवं आनुवंशिकी (Reproduction and Heredity)		
19.	पादपों में जनन (Reproduction in Plants)	122
20.	पौधों में वृद्धि और परिवर्धन (Growth and Development in Plants)	131
21.	जनन व जनसंख्या नियंत्रण (Reproduction and Population Control)	136
22.	आनुवंशिकी के सिद्धांत (Principles of Genetics)	142
23.	आणिवक वंशागति व जीन अभिव्यक्ति (Molecular Inheritance and Gene Expression)	149
24.	आनुवंशिकी तथा समाज (Genetics and Society)	155

<i>S.No.</i>	<i>Chapter</i>	<i>Page</i>
मॉड्यूल-IV: पर्यावरण एवं स्वास्थ्य (Environment and Health)		
25.	पारिस्थितिकी के सिद्धांत (Principles of Ecology)	159
26.	प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग एवं संरक्षण (Conservation and Use of Natural Resources)	165
27.	प्रदूषण (Pollution)	174
28.	पोषण और स्वास्थ्य (Nutrition and Health)	181
29.	कुछ सामान्य मानव रोग (Some Common Human Diseases)	187
मॉड्यूल-V: जीव विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र (Emerging Areas in Biology)		
30.	जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology)	193
31.	प्रतिरक्षा जैविकी : एक परिचय (Immunobiology: An Introduction)	200
■ ■		

**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**
www.neerajbooks.com

Solved Sample Paper - 1

Based on NIOS (National Institute of Open Schooling)

जीव विज्ञान - XII (Biology)

N-314

[समय : 3 घण्टे]

[पूर्णांक : 100]

निर्देश- (i) प्रश्न-पत्र में कुल 43 प्रश्न हैं। (ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उनके उत्तर उत्तर-पुस्तिका में लिखिए। खंड-क में प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पी (MCQ) प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। दिए गए चार विकल्पों में से सर्व समुचित विकल्प को उत्तर के रूप में लिखिए। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको उनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। खंड-ख में प्रश्न संख्या 17 से 28 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है (प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक के दो उपप्रश्न हैं।)। दिए गए निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खंड-ग में प्रश्न संख्या 29 से 37 तक के प्रश्न अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, जिसका उत्तर लगभग 30 से 50 शब्दों का हो सकता है। खंड-घ में प्रश्न संख्या 38 से 41 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, जिसका उत्तर लगभग 50 से 80 शब्दों का हो सकता है। खंड-ङ में प्रश्न संख्या 42 तथा 43 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, जिसका उत्तर लगभग 80 से 120 शब्दों का हो सकता है।

खंड-क

निर्देश : प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पी प्रकार (MCQ) के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

प्रश्न 1. जीवाणु कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ अवस्थित होता है-

(क) प्लाज्मा डिल्ली में

(ख) केन्द्रक में

(ग) कोशिकाप्रव्य में

(घ) केन्द्रकाभ (न्यूकिलऑड) में।

उत्तर-(घ) केन्द्रकाभ (न्यूकिलऑड) में।

प्रश्न 2. रक्त वाहिका, जो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजनित रक्त लाती है, वह है-

(क) फुफ्फुस धमनी (ख) महाधमनी

(ग) फुफ्फुस शिरा (घ) महाशिरा

उत्तर-(ग) फुफ्फुस शिरा।

अथवा

रक्त वाहिका, जो विअॉक्सीजनित रुधिर को शरीर के निचले भागों से एकत्रित करके हृदय में पहुँचाती है-

(क) निम महाशिरा (ख) फुफ्फुस शिरा

(ग) ऊर्ध्व महाशिरा (घ) महाधमनी

उत्तर-(क) निम महाशिरा।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन-सा अंग तिलचट्टे के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है?

(क) गर्भाशय (ख) अंडवाहिनी

(ग) योनि (घ) अण्डाशय

उत्तर-(क) गर्भाशय।

प्रश्न 4. एक व्यक्ति मन्द (कम) प्रकाश में नहीं देख पाता।

वह किस प्रदार्थ की अल्पता (न्यूनता) से पीड़ित है?

(क) प्रोटीन (ख) विटामिन A

(ग) विटामिन E (घ) विटामिन B-कॉम्प्लेक्स

उत्तर-(ख) विटामिन A

अथवा

उस वाक्य को चुनिए, जो 'परजीविता' शब्द को परिभाषित करता है।

(क) दोनों प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

(ख) दोनों प्रजातियाँ लाभान्वित होती हैं

(ग) एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी अप्रभावित रहती है

(घ) एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी को नुकसान होता है

उत्तर-(घ) एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी को नुकसान होता है।

प्रश्न 5. एक नवजात शिशु (लड़का) में जन्म से गुणसूत्रों की संख्या से एक 'X-गुणसूत्र' अधिक है। वह जिस आनुवांशिक विकार से पीड़ित है, उसे कहते हैं-

(क) मंगोलिता (मॉगोलिज्म) (ख) रक्सावी रोग

(ग) टर्नर सिंड्रोम (घ) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम

उत्तर-(घ) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।

प्रश्न 6. किसमें सबहनी पूल (बंडल) छितरे हुए होते हैं?

(क) एकबीजपत्री स्तंभ (तना) (ख) द्विबीजपत्री जड़

(ग) एकबीजपत्री जड़ (घ) द्विबीजपत्री स्तंभ (तना)

उत्तर-(क) एकबीजपत्री जड़।

2 / NEERAJ : जीव विज्ञान-XII (N.I.O.S.) (SOLVED SAMPLE PAPER-1)


अथवा

पौधे के किस भाग (अंग) में जाइलम एक्सार्च प्रकार का होता है?

- | | |
|-----------------|---------------|
| (क) पुष्ट | (ख) पत्ती |
| (ग) स्तंभ (तना) | (घ) जड़ (मूल) |

उत्तर-(घ) जड़ (मूल)।

प्रश्न 7. पुकेसरों का संजनन चित्र में नीचे दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पौधे में इस प्रकार का संजनन परिलक्षित होता है?




- | | |
|-----------|----------------|
| (क) सरसों | (ख) गुड़हल |
| (ग) मटर | (घ) पिट्यूनिया |

उत्तर-(ग) मटर।

अथवा

किस पौधे का चयन कीजिए जिसमें आप चित्र में दर्शाए गए प्रकार के पुकेसरों का संजनन देखते हैं।



- | | |
|----------------|-----------|
| (क) पिट्यूनिया | (ख) सरसों |
| (ग) लिली | (घ) मटर |

उत्तर-(ख) सरसों।

प्रश्न 8. स्थूलता (मोटापा) रोकने का उपाय है _____
अपने डाइट पर नियंत्रण करना।

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (क) अधिक भोजन करके | |
| (ख) वसा-समृद्ध आहार करके | |
| (ग) व्यायाम न करके | |
| (घ) कार्बोहाइड्रेट-समृद्ध भोजन न करके | |

उत्तर-(घ) कार्बोहाइड्रेट-समृद्ध भोजन न करके।

अथवा

हमारे आहार के संघटकों में से सर्वाधिक ऊर्जा-समृद्ध आहार का स्रोत है-

- | | |
|--------------------|-------------|
| (क) कार्बोहाइट्रेट | (ख) प्रोटीन |
| (ग) खनिज | (घ) वसा |

उत्तर-(घ) वसा।

प्रश्न 9. दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है-

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (क) लैक्टाइबेसिलस | (ख) ल्यूकोनोस्टॉक |
|-------------------|-------------------|

- | | |
|---------------------|------------------|
| (ग) माइसीबैक्टीरीयम | (घ) सैकेरोमाइसिज |
|---------------------|------------------|

उत्तर-(क) लैक्टाइबेसिलस।

प्रश्न 10. सभी स्वपेषी पौधों के अभिक्रिया केन्द्र को निरूपित करने वाला वर्णक है-

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (क) कैरोटीनायड | (ख) क्लोरोफिल b |
| (ग) क्लोरोफिल a | (घ) जैन्थोफिल |

उत्तर-(ग) क्लोरोफिल a

प्रश्न 11. समुद्री (सी) एनीमोन, जैलीफिश तथा मूँगे (कोरल) का फाइलम है?

- | | |
|------------------|--------------|
| (क) ऐस्केलिमिथीज | (ख) पोरीफेरा |
| (ग) नाइडेरिया | (घ) मोलस्का |

उत्तर-(ग) नाइडेरिया।

अथवा

स्पंजगुहा (स्पंजोकोल) तथा कैल्सियमी या सिलिकामय अंतर कंकाल वाले प्राणियों का फाइलम है-

- | | |
|---------------|-------------------|
| (क) पोरीफेरा | (ख) नाइडेरिया |
| (ग) आर्थोपोडा | (घ) इकाइनोडर्मेटा |

उत्तर-(क) पोरीफेरा।

प्रश्न 12. मानव गतिविधि (कार्यकलाप), जिसके कारण वायुमण्डली CO_2 की मात्रा में कमी आ सकती है-

- | | |
|--------------------------------|--|
| (क) स्वचालित वाहनों में वृद्धि | |
| (ख) उद्योगीकरण | |

(ग) शहरीकरण

(घ) पुनर्वनीकरण

उत्तर-(घ) पुनर्वनीकरण।

प्रश्न 13. पितिका (गॉल) बनाने वाला जीवाणु, जिसका उपयोग पारजीवी पादपों के निर्माण में किया जा सकता है-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (क) स्ट्रोमाइसीज़ स्पी. | |
| (ख) एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स | |
| (ग) क्लोस्ट्रीडियम स्पी. | |

(घ) एजोटोबैक्टर

उत्तर-(ख) एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स।

प्रश्न 14. सन् 1796 में चेचक से प्रतिरक्षण हेतु टीके का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है-

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (क) लुइस पाश्चर | (ख) एलेक्जेंडर फ्लोमिंग |
| (ग) एडवर्ड जेनर | (घ) हर्षे व चेस |

उत्तर-(ग) एडवर्ड जेनर।

अथवा

मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन-सा इम्यूनोग्लोबुलिन सान्द्रता (मात्रा) में पाया जाता है?

- | | |
|---------|---------|
| (क) IgG | (ख) IgM |
| (ग) IgE | (घ) IgA |

उत्तर-(क) IgG.

प्रश्न 15. कान का कौन-सा भाग नट (जिमास्ट) के विविध करतब दिखाते समय उसका संतुलन बनाए रखने में सहायक है?

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com



जीव विज्ञान (BIOLOGY)

मॉड्यूल-I: विविधता तथा जीवन का विकास (Diversity and Evolution of Life)

जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय (Origin and Evolution of Life and Introduction to Classification)

1

परिचय

पृथ्वी का निर्माण लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय पृथ्वी अत्यन्त गर्म थी। वायुमण्डल में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प थे। वातावरण की मीथेन व अमोनिया समुद्र में घुल गई। जल में रसायनिक अभिक्रियाएं होने के कारण अमीनो अम्ल, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा व वसा अम्लों का निर्माण हुआ। पुनः क्रियाओं व संयोजनों के फलस्वरूप जीवन से संबंधित नए प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण हुआ।

जीवों के लक्षण पहले भी बदलते रहे हैं, वे आज भी बदल रहे हैं और भविष्य में भी बदलते रहेंगे। प्राणियों के अंदर कार्यविहीन अंगों का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि ये अंग उन पूर्वजों से वंशागत आए हैं, जिनमें ये अंग क्रियाशील थे। जिन जीवों में दो विभिन्न वर्गों के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, वे संयोजी कड़ी कहलाते हैं। विकास के आणविक प्रमाण मिलते हैं कि सभी प्राणियों में कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाइयां होती हैं।

डार्विन के अनुसार जीव बड़ी संख्या में जीव पैदा करते हैं, जो जीवित रह सकने वाले जीवों से कहीं अधिक होते हैं। जो ताकतवर होते हैं, वे बच जाते हैं तथा आगे संतान उत्पन्न करते हैं। कमजोर जीव प्रकृति में विलुप्त हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक वरणवाद कहते हैं। नव-डार्विनवाद के अनुसार अनुकूल आनुवंशिक परिवर्तन वाली संतानें अधिक पैदा होती हैं। इसे विभेदित जनन कहते हैं। जीव परिवर्तन के विभिन्न स्रोत उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योजन, जीन प्रवाह तथा आनुवंशिक विचलन आदि हैं। नई स्पीशीज का विकास स्पीशीजीयन कहलाता है। अंतरण भौगोलिक पृथक्करण या बहुगुणन द्वारा होता

है। वर्गीकरण जीवों के बारे में अध्ययन व उनके बारे में सूचना संप्रेषण के लिए आवश्यक है।

वर्गीकरण का तात्पर्य समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूहन करना है। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण लिनियस द्विनाम पद्धति पर आधारित है। जीवन के पाँच जगत—मोनेरा, प्रोटोक्रिटस्या, फंजाई, प्लांटी व एनिमेली हैं। वाइरस की खोज इवानोब्स्की ने की थी और बेजेरिंग ने उन्हें यह नाम दिया था। वाइरस न्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं, जिनके केन्द्र में DNA व RNA के अणु रहते हैं, जो प्रोटीन आवरण से ढके रहते हैं। वाइरस इन्हें सूक्ष्म होते हैं कि उनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। वाइरस केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं। वाइरस जीवाणुओं, पादपों व जीवों को संक्रमित करते हैं। जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाले वाइरस जीवाणुभक्षक कहलाते हैं। वाइरस से अनेकों रोग; जैसे—हर्पीज, चेचक, एड्स, डेंगू आदि उत्पन्न होते हैं।

पाठगत प्रश्न 1.1

प्रश्न 1. लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था?

उत्तर—लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था।

प्रश्न 2. जीवन की उत्पत्ति के रसायनसंश्लेषी सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया था?

उत्तर—ए.आई. ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के रसायन-संश्लेषी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था।

प्रश्न 3. पृथ्वी के आरम्भिक वातावरण में विद्यमान चार गैसों के नाम बताइए।

उत्तर—अमोनिया (NH_3), मीथेन (CH_4), हाइड्रोजन (H_2) और जलवाष्प।

2 / NEERAJ : जीव विज्ञान (N.I.O.S.-XII)

प्रश्न 4. ऊर्जा का एक स्रोत बताइए जिसका प्रयोग आरम्भिक वातावरण में रासायनिक संयोजन के लिए किया गया।

उत्तर—पराबैंगनी किरणों व विद्युत विसर्जन (तटित) व ऊर्जा—इन सभी के मिलने पर रासायनिक अभिक्रियाएं हुईं।

प्रश्न 5. जीवन का उद्भव कहाँ हुआ—जल में या स्थल में?
उत्तर—जीवन का उद्भव जल में हुआ।

प्रश्न 6. सहपुंजित (Coacervates) क्या है?

उत्तर—विभिन्न प्रकार के अणुओं के बड़ी संख्या में पारस्परिक संयोजन से बहु-आणविक सम्मिश्र समष्टि विकसित हुई। जीवन जैसे अणुओं की समष्टि सहपुंजित कहलाती है।

प्रश्न 7. जीवन के उद्भव में, सर्वप्रथम अकार्बनिक यौगिकों से बड़े अणु निर्मित हुए। ऐसे किन्हीं दो बड़े अणुओं का नाम बताइए।

उत्तर—वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल।

प्रश्न 8. उन दो वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने प्रयोगात्मक तौर पर ओपेरेरिन की संकल्पना की जाँच का प्रयास किया।

उत्तर—स्टैनले मिलर व हेरॉल्ड सी. यूरे ने प्रयोगात्मक ओपेरेरिन की संकल्पना की जाँच का प्रयास किया।

पाठगत प्रश्न 1.2

प्रश्न 1. जैव विकास की परिभाषा लिखिए।

उत्तर—एक सर्वनिष्ठ पूर्वज से धीमी और क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुए रूपांतरण द्वारा विकास को जैव विकास कहते हैं।

प्रश्न 2. किसी एक ऐसे जीवाशम प्राणी का नाम बताइए, जो सरीसृपों और पक्षियों के बीच कड़ी का कार्य करता है।

उत्तर—आर्किआर्टेरिक्स एक ऐसा जीवाशम प्राणी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच एक संयोजी कड़ी है।

प्रश्न 3. मनुष्य का कौन-सा अंग पक्षियों के पंखों का समजात है?

उत्तर—मनुष्य की भुजाएं/अग्रपाद पक्षियों के पंखों के समजात हैं।

प्रश्न 4. अवशेषी अंग की परिभाषा दीजिए।

उत्तर—अवशेषी अंग शरीर का कोई भी छोटा, हासित या अपूर्ण रूप से विकसित (अक्रियात्मक) अंग है, जो किसी पूर्वज में पूर्णतः विकसित रहा होगा।

प्रश्न 5. जीवों के बीच संयोजी कड़ी का एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर—सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच एक जीवाशम पक्षी आर्किआर्टेरिक्स संयोजी कड़ी है।

प्रश्न 6. आणविक जीव विज्ञान से जैव विकास का समर्थन करने वाले दो उदाहरण दें।

उत्तर—(i) डी.एन.ए. सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है।
(ii) सभी जीवों में प्रोटीन-संश्लेषण के लिए प्रतिलेखन व स्थानातरण के मूलभूत सोपान समान हैं।

पाठगत प्रश्न 1.3

प्रश्न 1. प्राकृतिक वरण का सिद्धान्त किसने दिया था?

उत्तर—प्राकृतिक वरण का सिद्धान्त चार्ल्स डार्विन ने दिया था।

प्रश्न 2. डार्विन के सिद्धान्त के नए प्रतिपादनों को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर—डार्विन के सिद्धान्त के नए प्रतिपादनों को नव-डार्विन सिद्धान्त या आधुनिक संश्लेषी सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 3. चार्ल्स डार्विन के विकास संबंधी दो मुख्य योगदान क्या हैं?

उत्तर—(i) समस्त प्राणी अपने पूर्वजों से एक-दूसरे से संबंधित हैं।

(ii) उन्होंने विकास की एक प्रक्रिया सुझाई और इसका नाम प्राकृतिक वरण दिया।

प्रश्न 4. नव-डार्विनवाद की दो प्रमुख बातें क्या हैं?

उत्तर—(i) विकास की इकाई जनसंख्या है, जिसका स्वयं का अपना जीन पूल होता है। जीन पूल किसी भी जनसंख्या के सभी विभिन्न जीनों का एक समूह है।

(ii) प्राकृतिक वरण द्वारा उन परिवर्तनों का चयन कर लिया जाता है, जो प्राणी को पर्यावरण के प्रति अनुकूलन उत्पन्न करने में सहायक होते हैं।

प्रश्न 5. 'विभेदी जनन' से आप क्या समझते हैं?

उत्तर—अनुकूल आनुवांशिक परिवर्तन वाली संतानें अधिक पैदा होती हैं। इसे विभेदित जनन कहते हैं।

पाठगत प्रश्न 1.4

प्रश्न 1. जैव परिवर्तन के स्रोतों की सूची बनाइए।

उत्तर—जैव परिवर्तन से तात्पर्य किसी समष्टि के सदस्यों में विविधताओं से है। जैव परिवर्तन के विभिन्न स्रोत उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योजन, जीन प्रवाह व आनुवांशिक विचलन हैं।

1. उत्परिवर्तन—एक जीन में आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, जो कई जीनों को अपने प्रभाव में ले सकता है।

2. आनुवांशिक पुनर्योजन—लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप माता-पिता के गुणसूत्र युगमज निर्माण में जीन के विभिन्न संयोजनों के प्रमुख कारक होते हैं, जिससे विविधता उत्पन्न होती है।

3. जीन प्रवाह-लैंगिक प्रजनन के दौरान निकट संबंधी समष्टियों के जीनों के मिश्रण की संभावना जीन प्रवाह कहलाती है।

4. आनुवांशिक विलचन-जब कोई समष्टि किसी बड़ी समष्टि से पृथक होती है, तो उस छोटी समष्टि में बड़ी समष्टि के प्रतिनिधि जीन विद्यमान होते हैं, जो समयानुकूल उप-स्पीशीजों या स्पीशीजों की छोटी समष्टि के रूप में विकसित हो जाते हैं।

प्रश्न 2. औद्योगिक अतिकृष्णता (मेलेनिज्म) कहने का तात्पर्य क्या है? एक या दो वाक्यों में उत्तर दें।

प्रश्न 3. निम्न में एक अंतर बताएँ (क) ऐलोपेट्रिक और सिमपेट्रिक जाति उद्भवन (ख) पारिस्थितिक और स्वाभाविकीय (एथोलॉजिकल) विलगन।

उत्तर-(क) ऐलोपेट्रिक और सिमपेट्रिक जाति उद्भवन

ऐलोपेट्रिक	सिमपेट्रिक
जब समष्टि का एक भाग पैतृक जनसंख्या से भौगोलिक रूप से पृथक हो जाता है, तो इसे विस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं।	आनुवांशिकीय जनन अवरोध के कारण जब एक ही स्पीशीज की समष्टि का एक भाग परस्पर जनन में सक्षम नहीं रहता, तो एक नई स्पीशीज का उदय होता है, जिसे समस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं।

(ख) पारिस्थितिक और स्वाभाविकीय (एथोलॉजिकल) विलगन

पारिस्थितिक विलगन	स्वाभाविकीय विलगन
दो स्पीशीजों के एक-दूसरे से भौगोलिक विलगन या भौगोलिक रूप से अलग-अलग क्षेत्रों में रहने के कारण समागम करने में असमर्थता को पारिस्थितिक विलगन कहते हैं।	जब दो स्पीशीजों के स्वभाव के कारण सफल जनन नहीं होता। उदाहरण के लिए पक्षियों की दो स्पीशीजों के स्तरों में इतना अन्तर होता है कि स्पीशीज की मादा केवल अपने ही स्पीशीज के नर को पहचानती है। इसे स्वाभाविकीय विलगन कहा जाता है।

प्रश्न 4. सार्वमिश्रित (पैनमिक्टिक) समष्टि क्या है?

उत्तर-सार्वमिश्रित (पैनमिक्टिक) समष्टि का उद्भव यादृच्छिक रूप से लैंगिक संगम के कारण जीनों के यादृच्छिक रूप से मिलने से होता है।

प्रश्न 5. हार्डी-वायनबर्ग नियम के अनुसार $(p+q)^2 = 1$ होता है। इस गणितीय अभिव्यक्ति की व्याख्या करें।

उत्तर-हार्डी वायनबर्ग नियमानुसार $(p+q)^2 = 1$ जबकि p और q एक जीन के दो युग्मविकल्पी (ऐलील) हैं, जिनकी आवृत्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रहती हैं, यदि उनमें कोई उत्परिवर्तन अथवा वरण आदि न हुआ हो।

पाठगत प्रश्न 1.5

प्रश्न 1. उन वैज्ञानिकों के नाम बताइए जिन्होंने निम्नलिखित की प्रस्तावना की-

(a) द्विनाम पद्धति

(b) पाँच जगत वर्गीकरण

जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय / 3

उत्तर-मानव की औद्योगिक गतियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण में बदलाव आता है। इस समय स्पीशीजों की रक्षा करने के लिए प्राकृतिक वरण एक विशेष भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के दौरान पर्पर्डशलभ काले रंग से हल्के रंग के चितकबरे पंखों वाले मार्थ में परिवर्तित हुई, क्योंकि काला रंग स्पष्ट रूप से उन्हें खाने वाले पक्षियों के लिए दृष्टिगोचर था। इस प्रकार की घटनाएं औद्योगिक अतिकृष्णता कहलाती हैं।

प्रश्न 3. निम्न में एक अंतर बताएँ (क) ऐलोपेट्रिक और सिमपेट्रिक जाति उद्भवन (ख) पारिस्थितिक और स्वाभाविकीय (एथोलॉजिकल) विलगन।

उत्तर-(क) ऐलोपेट्रिक और सिमपेट्रिक जाति उद्भवन

सिमपेट्रिक

आनुवांशिकीय जनन अवरोध के कारण जब एक ही स्पीशीज की समष्टि का एक भाग परस्पर जनन में सक्षम नहीं रहता, तो एक नई स्पीशीज का उदय होता है, जिसे समस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं।

ऐलोपेट्रिक

जब समष्टि का एक भाग पैतृक जनसंख्या से भौगोलिक रूप से पृथक हो जाता है, तो इसे विस्थानिक जाति उद्भवन कहते हैं।

स्वाभाविकीय विलगन

जब दो स्पीशीजों के स्वभाव के कारण सफल जनन नहीं होता। उदाहरण के लिए पक्षियों की दो स्पीशीजों के स्तरों में इतना अन्तर होता है कि स्पीशीज की मादा केवल अपने ही स्पीशीज के नर को पहचानती है। इसे स्वाभाविकीय विलगन कहा जाता है।

उत्तर-(a) द्विनाम पद्धति-कैरोलस लीनियस।

(b) पाँच जगत वर्गीकरण-आर.एच. व्हीटेकर।

प्रश्न 2. पृथ्वी पर प्रकट होने वाले सर्वप्रथम जीव कौन थे?

उत्तर-पृथ्वी पर सर्वप्रथम विकसित होने वाले जीव बैक्टीरिया (जीवाणु) थे।

प्रश्न 3. फैमिली के पूर्ववर्ती व अग्रवर्ती वर्गीकरण श्रेणी का नाम बताएँ।

उत्तर-फैमिली के पूर्ववर्ती जीनस (वंश) व अग्रवर्ती क्लास श्रेणी आती है।

प्रश्न 4. ऑर्डर स्तर से ऊपर आने वाली श्रेणियों का नाम सही-सही क्रम में लिखें।

उत्तर- 1. जगत 2. फाइलम

3. क्लास 4. ऑर्डर

5. फैमली 6. जीनस

7. स्पीशीज

4 / NEERAJ : जीव विज्ञान (N.I.O.S.-XII)

प्रश्न 5. निम्नलिखित को उनके सही रूप में फिर से लिखें—

(a) *Mangifera Indica*

(b) *Homo Sapiens*

(c) *Felis Leo*

उत्तर—(a) *Mangifera indica*

(b) *Homo sapiens*

(c) *Felis leo*

प्रश्न 6. निम्नलिखित को उनके सही जगत में लिखें—

(a) दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया

(b) गाय

(c) घास

(d) अमीबा

(e) ब्रेड फफूंदी

उत्तर—(a) दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया—मोनेरा

(b) गाय—एनिमेली

(c) घास—प्लांटी

(d) अमीबा—प्रोटिस्टा

(e) ब्रेड फफूंदी—फंजाई

पाठगत प्रश्न 1.6

प्रश्न 1. वाइरसों के संदर्भ में निम्नप्रदत्त तालिका में रिक्त स्थानों (1, 2 व 3) को भरिए—

1.	तंबाकू	तंबाकू मोजेक रोग
HIV	2.	AIDS
हर्पीज	मानव	3.

उत्तर—

1. तंबाकू मोजेक वाइरस	तंबाकू	तंबाकू मोजेक रोग
HIV	2. मानव	AIDS
हर्पीज	मानव	3. हर्पीज

प्रश्न 2. विषाणुओं (वाइरसों) का कोई एक लक्षण बताइए जिसके आधार पर इन्हें निर्जीव माना जाता है।

उत्तर—वाइरस स्वयं जनन नहीं कर पाते, इसलिए वे निर्जीव माने जाते हैं तथा ये अकोशिकीय हैं और इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न 3. एक रसायन का नाम बताएं जो वाइरसों व अन्य सभी जीवों में भी पाया जाता है।

उत्तर—न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन सभी वाइरस व अन्य सभी जीवों में भी पाया जाता है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों को पूछा करें—

(क) वाइरस के क्रोड कण में होता है।

(ख) वाइरस का आवरण का बना होता है।

उत्तर—(क) वाइरस के क्रोड कण में DNA या RNA होता है।

(ख) वाइरस का आवरण प्रोटीन का बना होता है।

प्रश्न 5. संरचना की दृष्टि से विषाणुभ किस प्रकार विषाणु से भिन्न होते हैं?

उत्तर—विषाणु एक सरल संरचना है, जिसका आनुवांशिक पदार्थ डी.एन.ए. या आर.एन.ए. से बना है और यह प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है, जबकि विषाणुभ वर्तुलाकार कई सौ न्यूक्लिओटाइड से मिलकर बने होते हैं। इनका आनुवांशिक पदार्थ केवल आर.एन.ए. से बना होता है।

प्रश्न 6. विषाणुभ आक्रमिक होने वाले पौधों के लिए खतरनाक समझे जाते हैं। ऐसा क्यों?

उत्तर—विषाणुभ पौधों के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं, क्योंकि ये पौधों में एंजाइमों के प्रयोग द्वारा पादप कोशिकाओं की प्रतिकृति बनाने लगते हैं और इनकी संख्या में वृद्धि होने के पश्चात पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, और परिवर्धन असामान्य हो जाता है।

पाठान्त्र प्रश्न

प्रश्न 1. पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के विषय में सबसे प्रामाणिक सिद्धान्त कौन-सा है? मिलर व यूरे ने किस प्रकार रसायनी-संश्लेषण को सत्यापित किया?

उत्तर—जीवन की उत्पत्ति के विषय में ए.आई. ओपेरेन द्वारा रसायन-संश्लेषी सिद्धान्त प्रस्तावित किया गया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुई, जो रसायनिक पदार्थों के क्रमबद्ध संयोजन से संभव हुई।

मिलर व यूरे ने सन 1953 में एक वायुरोधी उपकरण की सहायता से प्रयोग किया। इस प्रयोग से उन्होंने दिखाया कि पराबैंगनी किरणों तथा ऊष्मा आदि के संयोजन से सरल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो गए, जैसे—अमीनो अम्ल, अमोनिया (NH_3), मीथेन (CH_4), हाइड्रोजन (H_2) तथा जल (H_2O)।

प्रश्न 2. डार्विनवाद व नव-डार्विनवाद में भेद कीजिए।

उत्तर—डार्विनवाद—अंग्रेज वैज्ञानिक चाल्स डार्विन (1809-1882) ने विकास की प्रक्रिया को अपने प्राकृतिक वरण के आधार पर स्पष्ट किया, जिसमें छः आधारभूत बातें थीं—

(i) संतान की अति उत्पत्ति

(ii) विभिन्नता

(iii) अस्तित्व के लिए संघर्ष